

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पी0एम0यू0 (ई-गवर्नेन्स)
सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी,
देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग

देहरादून दिनांक: 06 अक्टूबर, 2016

विषय:- उत्तरांचल ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0एम0यू0) हेतु सृजित पदों की निरन्तरता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित टैक्निकल असिस्टेन्स फॉर इकोनॉमिक रिफार्म प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आई0टी0 इनिशिएटिव हेतु सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत उत्तरांचल ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0एम0यू0) हेतु शासनादेश संख्या-65/19/XXXIV/2004 दिनांक 23 जून 2004, गवर्निंग बॉडी की बैठक दिनांक 20.11.2006 एवं शासनादेश संख्या- 395/XXXIV/2014/125/2006 दिनांक 27 अगस्त, 2014 के द्वारा सृजित/स्वीकृत पदों के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 504/XXXIV/2015-125/ 2006 दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 51/XXXIV/2016-125/2006 दिनांक 11 फरवरी, 2016 द्वारा प्रदान की गयी निरन्तरता के क्रम में संलग्न सूची के क्रम संख्या 1-14 पदों की निरन्तरता दिनांक 01.03.2016 से आई0टी0डी0ए0 के पुर्नगठन/सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय के गठन अथवा दिनांक 28.02.2017, जो भी पहले हो, तक श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, बशर्त कि उक्त पद पूर्व में ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय।

2. आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों को अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करते हुए भरा जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: 518 /XXVII-2 दिनांक : 15 सितम्बर 2016 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या-372/XXXIV / 2016-125 / 2006 तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 372/XXXIV/2016-125/2006 का संलग्नक

क्र०सं०	पद नाम	भर्ती का स्रोत	संख्या
शासनादेश संख्या- 65/19-XXXIV/2004 दिनांक 23 जून, 2004 द्वारा सृजित			
1.	निदेशक	प्रतिनियुक्ति	1
2.	प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर (वित्त/प्रशासन/प्रोक्योरमेन्ट)	तदेव	1
3.	प्रबन्धक लेखा	तदेव	1
4.	वैयक्तिक सहायक	(हायर्ड बेसिस/वाह्य स्रोत)	1
5.	स्टेनोग्राफर	तदेव	1
6.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	तदेव	4
7.	रनर	तदेव	4
8.	गार्ड	तदेव	4
9.	टास्कफोर्स मैनेजर	तदेव	2
10.	प्रोक्योरमेन्ट मैनेजर	तदेव	1
गवर्निंग बॉडी की बैठक दिनांक 20.11.2006 के द्वारा स्वीकृत			
11.	कन्सल्टैंट (ऑडिट एण्ड एकाउण्ट)	हायर्ड बेसिस/वाह्य स्रोत	1
12.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	हायर्ड बेसिस/वाह्य स्रोत	2
शासनादेश संख्या- 395/XXXIV/2014/125/06 दिनांक 27 अगस्त, 2014 द्वारा सृजित			
13.	प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर (तकनीकी)	प्रतिनियुक्ति	1
14.	टास्क फोर्स मैनेजर	नियत वेतन	2


 ✓ (धर्मेन्द्र सिंह)
 अपर सचिव।